



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2020
कार्तिक 26, 1942 शक सम्बत्

कार्यालय निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश

संख्या 4/768-2020-4-111(लखीमपुर खीरी)-2014
लखनऊ, 17 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-413

उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2334/तैंतीस-1-94-149-94, दिनांक 9 मई, 1994 द्वारा संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 3 और 11(च) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग के शासनादेश संख्या 1207/38-3-2000-34बी-2000, दिनांक 15 मार्च, 2000 द्वारा उ० प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र० को प्रतिनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, किंजल सिंह, निदेशक, पंचायती राज, उ० प्र०, लखनऊ, पंचायती राज अनुभाग-3, उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 1992/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 16 अगस्त, 2014 एवं शासनादेश संख्या 2491/33-3-2014-03रा०नि०आ०-2014, दिनांक 27 अक्टूबर, 2010 में दी गई व्यवस्थानुसार जनपद लखीमपुर खीरी की विकास खण्डवार ग्राम पंचायतों की निर्गत अधिसूचना संख्या 4/314-2015-4-111(लखीमपुर खीरी)-2014, दिनांक 9 फरवरी, 2015 में विकास खण्ड निघासन की ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में पूर्व स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर संशोधित स्थिति में उल्लिखित प्रविष्टियाँ एतद्द्वारा स्थापित करती हूँ।

सारिणी

जनपद का नाम—लखीमपुर खीरी

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
1	निघासन	खमरिया कोईलार	खमरिया कोईलार	1	निघासन	खमरिया कोईलार	खमरिया कोईलार
2		सहनखेडा	सहनखेडा	2		सहनखेडा	सहनखेडा
3		जसनगर	जसनगर	3		जसनगर	जसनगर
			रामनगर संकल्पा				रामनगर संकल्पा
4		बरसोला कलां	बरसोला कलां	4		बरसोला कलां	बरसोला कलां
5		उमरा	उमरा	5		उमरा	उमरा
6		सूरतनगर	सूरतनगर,	6		सूरतनगर	सूरतनगर,
			इन्द्रनगर				इन्द्रनगर
7		सुथनाबरसोला	सुथनाबरसोला	7		सुथनाबरसोला	सुथनाबरसोला
8		बथुआ	बथुआ	8		बथुआ	बथुआ
9		सिधौना	सिधौना	9		सिधौना	सिधौना
10		रमुवापुर	रमुवापुर	10		रमुवापुर	रमुवापुर
11		मुर्तिहा	मुर्तिहा,	11		मुर्तिहा	मुर्तिहा,
			लट्ठौवा				लट्ठौवा
12		लुधौरी	लुधौरी	12		लुधौरी	लुधौरी
13		खमरिया	खमरिया	13		खमरिया	खमरिया
14		मदनापुर	मदनापुर	14		मदनापुर	मदनापुर
			लालबोझी				लालबोझी
15		बैलहा	बैलहा	15		बैलहा	बैलहा
16		अदलाबाद	अदलाबाद	16		अदलाबाद	अदलाबाद
			सौनाकलां				सौनाकलां
			कुचलहा				कुचलहा
17		ग्रन्ट नं० 12	ग्रन्ट नं० 12,	17		ग्रन्ट नं० 12	ग्रन्ट नं० 12,
			टुडेला				टुडेला
18		लालपुर	लालपुर	18		लालपुर	लालपुर
19		सिंगहा कला	सिंगहा कला	19		सिंगहा कला	सिंगहा कला
20		मोतीपुर	मोतीपुर	20		मोतीपुर	मोतीपुर
21		हरद्वही	हरद्वही,	21		हरद्वही	हरद्वही,
			दरहेटी				दरहेटी

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
22		निबौरिया	निबौरिया	22		निबौरिया	निबौरिया
23		नौरंगाबाद	नौरंगाबाद, मोहम्मदपुर	23		नौरंगाबाद	नौरंगाबाद, मोहम्मदपुर
24		गंगाबेहड	गंगाबेहड	24		गंगाबेहड	गंगाबेहड
25		बल्लीपुर	बल्लीपुर	25		बल्लीपुर	बल्लीपुर
26		छेदुईपतिया	छेदुईपतिया	26		छेदुईपतिया	छेदुईपतिया
27		खैरहना	खैरहना	27		खैरहना	खैरहना
28		मुर्गहा	मुर्गहा	28		मुर्गहा	मुर्गहा
29		बौधिया कला	बौधिया कला	29		बौधिया कला	बौधिया कला
30		रकेहटी	रकेहटी	30		रकेहटी	रकेहटी
31		निघासन	निघासन	अधिसूचना संख्या 2042/9-1-2019-88सा-12, लखनऊ, दिनांक 8 दिसम्बर, 2019 द्वारा नगर पंचायत घोषित			
32		बंगलहाकुटी	बंगलहाकुटी	31		बंगलहाकुटी	बंगलहाकुटी
33		ढखेरवाखालसा	ढखेरवाखालसा	32		ढखेरवाखालसा	ढखेरवाखालसा
34		बरोठा	बरोठा	33		बरोठा	बरोठा
35		मिर्जागंज	मिर्जागंज	34		मिर्जागंज	मिर्जागंज
36		कटहिया	कटहिया महुवा	35		कटहिया	कटहिया महुवा
37		गुलरिया पत्थर शाह	गुलरिया पत्थर शाह	36		गुलरिया पत्थर शाह	गुलरिया पत्थर शाह
38		भेड़ौरी	भेड़ौरी महराज नगर शालचन्द्र	37		भेड़ौरी	भेड़ौरी महराज नगर शालचन्द्र
39		लालापुर	लालापुर	38		लालापुर	लालापुर
40		कडिया	कडिया किशननगर दीपनगर	39		कडिया	कडिया किशननगर दीपनगर
41		बेलापरसुआ	बेलापरसुआ रघुनगर	40		बेलापरसुआ	बेलापरसुआ रघुनगर
42		रायपुर	रायपुर	41		रायपुर	रायपुर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
43		गंगानगर	गंगानगर	42		गंगानगर	गंगानगर
			रननगर				रननगर
44		बनवीरपुर	बनवीरपुर	43		बनवीरपुर	बनवीरपुर
45		सिसवारी	सिसवारी	44		सिसवारी	सिसवारी
46		कोल्हौरी	कोल्हौरी	45		कोल्हौरी	कोल्हौरी
47		खैरीगढ	खैरीगढ, ,	46		खैरीगढ	खैरीगढ, ,
			महेन्द्रनगर,				महेन्द्रनगर,
			रूपनगर				रूपनगर
			,सिसैया				,सिसैया
			ऊधौवनगर				ऊधौवनगर
48		सिंगाही देहात	सिंगाही देहात	47		सिंगाही देहात	सिंगाही देहात
49		शीतलापुर	शीतलापुर,	48		शीतलापुर	शीतलापुर,
			रामनगर वीरान				रामनगर वीरान
50		पचपेडारिछैया	पचपेडारिछैया	49		पचपेडारिछैया	पचपेडारिछैया
51		भैरमपुर	भैरमपुर	50		भैरमपुर	भैरमपुर
52		माझा	माझा,	51		माझा	माझा,
			बघौडिया,				बघौडिया,
			इच्छानगर				इच्छानगर
53		भेडौरा	भेडौरा	52		भेडौरा	भेडौरा
			मसुरहा				मसुरहा
54		बंगलहातकिया	बंगलहातकिया	53		बंगलहातकिया	बंगलहातकिया
55		नौबना	नौबना	54		नौबना	नौबना
56		मो०बेहड	मो०बेहड	55		मो०बेहड	मो०बेहड
			बनिगवां				बनिगवां
57		हरसिंगपुर	हरसिंगपुर	56		हरसिंगपुर	हरसिंगपुर
58		त्रिकोलिया	त्रिकोलिया	57		त्रिकोलिया	त्रिकोलिया
59		बिनौरा	बिनौरा	58		बिनौरा	बिनौरा
60		मूडाबुजुर्ग	मूडाबुजुर्ग	59		मूडाबुजुर्ग	मूडाबुजुर्ग
61		खैरहनी	खैरहनी	60		खैरहनी	खैरहनी
62		दौलतापुर	दौलतापुर	61		दौलतापुर	दौलतापुर

वर्तमान स्थिति				संशोधित स्थिति			
क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम	क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित राजस्व ग्रामों का नाम
1	2	3	4	1	2	3	4
63		बम्हनपुर	बम्हनपुर	62		बम्हनपुर	बम्हनपुर
64		धर्मापुर	धर्मापुर	63		धर्मापुर	धर्मापुर
			कड़िया				कड़िया
65		चखरा	चखरा	64		चखरा	चखरा
66		दुबहा	दुबहा	65		दुबहा	दुबहा

उपर्युक्तानुसार पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/314/2015-4/111(खीरी)-2014, दिनांक 9 फरवरी, 2015 उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

आज्ञा से,
किंजल सिंह,
निदेशक,
पंचायती राज, उ० प्र०।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 496 राजपत्र-2020-(1046) 599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 43 सा० पंचायती राज-2020-(10474)132 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

496 RPH 20120 (Lakheempur Kheeri Panchaiti Raj-data-4E)